

OP5010

20506

2019(Odd)

Old Syllabus

Time : 4Hrs.

Sem. V-E/EC&Comm/ICE

Ctrl Sys Lab.

Full Marks : 40

Pass Marks : 16

1. Each question carries equal marks.
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
2. Perform any one experiment/study and furnish it report
किसी एक प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करें एवं इसका पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
3. Experiment will be allotted through lottery to examinee/group of examinees.
प्रयोग का आवंटन परीक्षार्थी/परीक्षाधियों के समूह को लॉटरी के ? आधार पर किया जाएगा।
4. Necessary calculations, drawings and other works shall be done individually.
आवश्यक गणना, आरेखन एवं अन्य कार्य व्यक्तिगत रूप से किये जायेंगे।

	Intn.	Extn.
	Comm.	Comm.
a) Practical exercise book		
वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका		
b) Process of experiment and result	05	10
परिक्षण की विधि एवं निष्कर्ष		
c) Viva - voce	10	10
मौखिक प्रश्न		
	05	-

P.T.O

| የዕቅ ተከከለድ ጥቅ እያምንታዊ ክፍልዎች

4. Study of Analogue Computer

| የዕለታዊ ቤትዎች

በዚህ የዚህ በቃል እና የዚህ በቃል እና የዚህ በቃል እና የዚህ በቃል እና

3. Study the frequency response of second order system

I. ΑΦΕΤΗΣΙΕ

በዚህ የሰውን በቃላት እና ስራውን በቃላት

- ## 2. Study of transient response of First Order system

| የዕቅድ በጥቅምት

አቀባይ ትኩስ ወይም ንግድ ተከራክር የሚያስፈልግ ነው በዚህ በቻ ተከራክር
ቁጥር ተከራክር የሚያስፈልግ ነው በዚህ በቻ ተከራክር የሚያስፈልግ ነው በዚህ በቻ
ተከራክር ወይም ንግድ ተከራክር የሚያስፈልግ ነው በዚህ በቻ ተከራክር የሚያስፈልግ ነው

5. Study the time response of Second Order system

Find transfer function with block diagram.

Make necessary connection for the study of field controlled d.c. servomotor. Explain its theory and controlled d.c. servomotor.